

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 08.11.2022

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 07 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

05 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना खरगपुर पुलिस ने 01, थाना कटराबाजार पुलिस ने 02, थाना परसपुर पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई

कार्यवाही-

01. थाना को0 देहात पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. संजय कुमार पुत्र देवीदीन निवासी ग्राम खिरौरा मोहन थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 528/22 धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना इटियाथोक पुलिस ने तिरेमनोरमा मेला स्थल से खोए बच्चे को खोजकर सकशल उनके परिजनों को किया सुपुर्द, अपनों से मिलकर बच्चे के चेहरे पर लौटी मुस्कान:-

आज दिनांक 08.11.2022 को कार्तिक पूर्णिमा स्नान के दृष्टीगत थाना इटियाथोक क्षेत्र अन्तर्गत तिरेमनोरमा मेला सकशल सम्पन्न कराने व शांति एवं कानून व्यवस्था हेतु पुलिस बल उपस्थित थी। तभी सूचना मिली की एक बच्चा जो अपने परिजनों के साथ मेले में आया हुआ था मेले में खो गया है। उक्त सूचना पर प्रभारी निरीक्षक इटियाथोक ने तत्काल पुलिस टीम के साथ खोजबीन कर बच्चे को सकशल बरामद कर परिजन को सुपुर्द किया गया। अपनो से मिलकर लड़के के चेहरे पर मुस्कान लौटी तथा परिजनो ने गोण्डा पुलिस को बहुत-बहुत धन्यवाद दिया। उक्त सराहनीय कार्य की आम जनमानस में भी काफी सराहना की जा रही है।